

सारणी सं. 5.6 – अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के बकाया ऋण का व्यवसाय

पश्चिमी क्षेत्र (क्रमशः)

व्यवसाय	भारतीय स्टेट बैंक और उसके सहयोगी बैंक			राष्ट्रीयकृत बैंक		
	खातों की संख्या	ऋण सीमा	बकाया राशि	खातों की संख्या	ऋण सीमा	बकाया राशि
	1	2	3	4	5	6
I. कृषि	33	65	61	643	5,92	5,43
1. प्रत्यक्ष वित्त	33	65	61	625	5,63	5,20
2. परोक्ष वित्त	—	—	—	18	29	23
II. उद्योग	17	40,25	34,37	274	494,03	393,95
1. खनन तथा उत्खनन	—	—	—	—	—	—
2. खाद्य निर्माण और अभिसंस्करण	3	2	2	12	6,08	6,06
(क) चावल, आटा व दाल मिलें	—	—	—	6	2	2
(ख) चीनी	—	—	—	3	5,95	5,93
(ग) खाद्य तेल और वनस्पती	—	—	—	1	7	7
(घ) चाय अभिसंस्करण	—	—	—	—	—	—
(ङ) फलों और वनस्पतियों का अभिसंस्करण	—	—	—	—	—	—
(च) अन्य	3	2	2	2	4	4
3. पेय पदार्थ और तम्बाकू	—	—	—	—	—	—
4. वस्त्र	3	33,40	28,29	64	373,73	318,50
(क) सूती वस्त्र	—	—	—	29	228,56	195,11
(ख) पेटसन और अन्य प्राकृतिक फायबर के वस्त्र	—	—	—	—	—	—
(ग) हथकरघा वस्त्र और खादी	—	—	—	—	—	—
(घ) अन्य वस्त्र और वस्त्र उत्पाद	3	33,40	28,29	35	145,17	123,39
5. कागज, कागज उत्पाद और मुद्रण	1	1	1	21	6,66	5,21
6. लकड़ी और लकड़ी उत्पाद	—	—	—	—	—	—
7. चमड़ा और चमड़ा उत्पाद	—	—	—	—	—	—
8. रत्न और आभूषण	—	—	—	—	—	—
9. रबड़ और प्लास्टिक उत्पाद	2	42	21	48	24,11	18,83
10. रसायन और रासायनिक उत्पाद	1	5	4	10	25,80	13,12
(क) भारी औद्योगिक रसायन	—	—	—	5	15,29	7,19
(ख) उर्वरक	—	—	—	—	—	—
(ग) औषध और औषधीय उत्पाद	—	—	—	1	3	1
(घ) खाद्यतेर तेल	—	—	—	—	—	—
(ङ) अन्य रसायन और रासायनिक उत्पाद	1	5	4	4	10,49	5,91
11. पेट्रोलियम, कोयला उत्पाद और परमाणु इंधन	—	—	—	3	61	60
12. सीमेंट और सीमेंट उत्पादों का निर्माण	—	—	—	2	9	3
13. मूल धातुएं और धातु उत्पाद	1	5	4	10	14,59	14,46
(क) लोहा व इस्पात	—	—	—	2	13,05	13,00
(ख) अलाह धातु	1	5	4	1	20	11
(ग) धातु उत्पाद	—	—	—	7	1,35	1,34
14. अभियांत्रिकी	4	5,20	4,73	12	25,64	6,32
(क) भारी अभियांत्रिकी	—	—	—	3	7,83	84
(ख) हल्की अभियांत्रिकी	2	1,00	65	3	10,04	3,01
(ग) विद्युत् मशीनरी और सामान	2	4,20	4,08	4	7,72	2,44
(घ) इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी और सामान	—	—	—	2	4	4
15. वाहन, वाहन पुर्ज और परिवहन उपस्कर	—	—	—	1	8,70	4,36
16. अन्य उद्योग	—	—	—	84	5,27	3,71
17. विद्युत्, गैस और जल	—	—	—	2	23	23
(क) विद्युत् उत्पादन और प्रेषण	—	—	—	—	—	—
(ख) गैर-परंपरागत ऊर्जा	—	—	—	2	23	23
(ग) गैस, बाष्प और जल आपूर्ति	—	—	—	—	—	—
18. निर्माण	2	1,10	1,05	5	2,51	2,52
(क) आधारभूत निर्माण के अलावा	2	1,10	1,05	1	3	3
(ख) आधारभूत निर्माण	—	—	—	4	2,49	2,50
III. परिवहन परिचालक	3	15	12	27	50	49
IV. व्यावसायिक और अन्य सेवाएं	14	2,13	1,77	626	5,95	4,62
1. व्यावसायिक सेवाएं	2	77	63	449	1,69	1,57
2. पर्यटन, होटल और रेस्टोरेंट	4	13	9	12	1,33	1,26
3. मनोरंजन सेवाएं	—	—	—	2	1	1
4. सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार	—	—	—	1	3	3
5. अन्य	8	1,23	1,05	162	2,90	1,75
V. वैयक्तिक ऋण	955	24,91	20,41	1,307	29,09	28,16
1. आवास	365	17,55	15,03	629	20,71	20,64
2. टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं	6	1	1	19	5	5
3. वाहन	96	2,24	1,92	183	2,58	2,54
4. शिक्षा	22	90	41	53	1,58	1,59
5. व्यक्तिगत क्रेडिट कार्ड	—	—	—	81	19	15
6. अन्य	466	4,21	3,04	342	3,98	3,18
VI. व्यापार	7	21	14	265	3,99	3,55
1. थोक व्यापार	—	—	—	4	42	42
2. खुदरा व्यापार	7	21	14	261	3,57	3,13
VII. वित्त	—	—	—	4	66	60
VIII. अन्य सभी	2	1	1	224	95	93
कुल बैंक ऋण	1,031	68,30	57,42	3,370	541,08	437,75

के अनुसार राज्य तथा बैंक समूहवार वर्गीकरण – मार्च 2009

दादरा और नगर हवेली

(राशि लाख रुपयों में)

विदेशी बैंक			क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक			निजी क्षेत्रीय बैंक			सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक			मद सं.
खातों की संख्या	ऋण सीमा	बकाया राशि	खातों की संख्या	ऋण सीमा	बकाया राशि	खातों की संख्या	ऋण सीमा	बकाया राशि	खातों की संख्या	ऋण सीमा	बकाया राशि	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	676	6,57	6,04	I.
-	-	-	-	-	-	-	-	-	658	6,28	5,80	1.
2	1,50	1,04	-	-	-	32	262,26	170,63	18	29	23	2.
-	-	-	-	-	-	-	-	-	325	798,03	599,99	II.
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.
-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	6,10	6,08	2.
-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	2	2	2 (क)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5,95	5,93	2 (ख)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7	7	2 (ग)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 (घ)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 (ङ)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	6	6	2 (च)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.
-	-	-	-	-	-	8	199,00	162,86	75	606,13	509,65	4.
-	-	-	-	-	-	1	8	6	30	228,64	195,17	4 (क)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 (ख)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 (ग)
-	-	-	-	-	-	7	198,92	162,80	45	377,49	314,48	4 (घ)
-	-	-	-	-	-	4	56	43	26	7,22	5,65	5.
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.
-	-	-	-	-	-	1	6	5	51	24,59	19,09	9.
-	-	-	-	-	-	3	46,50	1,44	14	72,35	14,59	10.
-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	15,29	7,19	10 (क)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 (ख)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	10 (ग)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 (घ)
-	-	-	-	-	-	3	46,50	1,44	8	57,04	7,39	10 (ङ)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	61	60	11.
-	-	-	-	-	-	1	20	19	3	29	23	12.
-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	14,64	14,50	13.
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	13,05	13,00	13 (क)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	25	15	13 (ख)
2	1,50	1,04	-	-	-	-	-	-	7	1,35	1,34	13 (ग)
1	50	4	-	-	-	11	8,27	3,18	29	40,61	15,26	14.
1	1,00	1,00	-	-	-	-	-	-	4	8,33	87	14 (क)
-	-	-	-	-	-	1	3	3	7	12,07	4,69	14 (ख)
-	-	-	-	-	-	5	6,98	2,04	11	18,90	8,55	14 (ग)
-	-	-	-	-	-	5	1,26	1,10	7	1,30	1,14	14 (घ)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8,70	4,36	15.
-	-	-	-	-	-	3	7,60	2,42	87	12,87	6,13	16.
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	23	23	17.
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 (क)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	23	23	17 (ख)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 (ग)
-	-	-	-	-	-	1	7	7	8	3,68	3,64	18.
-	-	-	-	-	-	1	7	7	4	1,19	1,14	18 (क)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2,49	2,50	18 (ख)
-	-	-	-	-	-	1	10	10	31	75	71	III.
-	-	-	-	-	-	18	3,09	3,05	658	11,17	9,44	IV.
-	-	-	-	-	-	-	-	-	451	2,46	2,20	1.
-	-	-	-	-	-	7	2,55	2,55	23	4,01	3,91	2.
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	3.
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	4.
-	-	-	-	-	-	11	54	50	181	4,67	3,29	5.
-	-	-	-	-	-	439	5,56	4,90	2,701	59,56	53,47	V.
-	-	-	-	-	-	49	1,68	1,69	1,043	39,94	37,36	1.
-	-	-	-	-	-	6	3	3	31	9	8	2.
-	-	-	-	-	-	6	5	5	285	4,87	4,52	3.
-	-	-	-	-	-	3	4	4	78	2,53	2,05	4.
-	-	-	-	-	-	23	66	25	104	85	41	5.
-	-	-	-	-	-	352	3,10	2,84	1,160	11,28	9,06	6.
1	1,50	1,50	-	-	-	22	3,74	2,97	295	9,43	8,16	VI.
1	1,50	1,50	-	-	-	5	1,01	86	10	2,93	2,78	1.
-	-	-	-	-	-	17	2,73	2,11	285	6,50	5,38	2.
-	-	-	-	-	-	1	25	-	5	91	60	VII.
-	-	-	-	-	-	235	2,01	1,80	461	2,97	2,74	VIII.
3	3,00	2,54	-	-	-	748	277,01	183,45	5,152	889,39	681,15	कुल